

6 सितम्बर 2017 को होने वाली मानवाधिकारों के वैश्विक घोषणा-पत्र पर विश्वस्तरीय रीडिंग की घोषणा आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां लोकतंत्र की सैद्धांतिक नींव को चुनौती दी जा रही है और अनुचित बहस की जा रही है, ऐसा ही रवैया अमेरिका के राष्ट्रपति ने अब तक क्रियाशील न्यायिक व्यवस्था के प्रति दिखाया | यही नहीं 1948 के मानवाधिकार के घोषणा पत्र, 1951 के शरणार्थियों पर जिनेवा कंवेन्शन और यूरोपियन संघ में शामिल होने पर प्रत्येक देश के निर्णय पर पश्चिमी नीतियों और राजनेताओं द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। यहां तक कि क्लाइमेट चेंज जैसे स्पष्ट तथ्यों को "फेक न्यूज" का तमगा लगा दिया जाता है जबकि जो वास्तविक फेक न्यूज है उसे मीडिया में आराम से जगह मिल जाती है।

राष्ट्रवादी ताकतों और राइट और लेफ्ट पार्टियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। कुछ देशों में इन पार्टियों के नेता काफी महत्वपूर्ण पदों पर हैं। आज का रूस तत्कालीन राष्ट्रपति और उसके प्रशासन, मतभेद रखने वालों के आपराधिकरण, विरोधियों, समलैंगिकों, क्रीमीआ पर कब्जे और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध, और सीरिया के युद्ध अपराधों से जाना जाता है। चीन की बढ़ती वित्तीय सफलता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों और पुलिस स्टेट के रूप में निरंतर चल रही कार्यवाहियों के कारण उसके आका खुशी-खुशी उन शक्तियों को असमर्थ बना सकते हैं जो उनका विरोध करते हैं। हम यूरोपीय लोग द्वितीय विश्वयुद्ध के खत्म होने के बाद से जिस शांतिपूर्ण वातावरण में जीने के आदी हो गए हैं उसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

इसीलिए बर्लिन के अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल में सभी सांस्कृतिक और राजनैतिक संस्थानों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, मीडिया और व्यक्तियों का स्वागत है जो विश्वस्तरीय रीडिंग्स के लिए शामिल होना चाहते हैं और साथ ही उन मानवाधिकारों पर वैश्विक घोषणा-पत्र के 30 अनुच्छेदों पर चर्चा करना चाहते हैं जो 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन असेंबली ने स्वीकार किए थे। इस इवेंट का मकसद ही उस घोषणा-पत्र को फिर से नज़रों में लाने का है और ये याद दिलाना है कि "सभी लोगों व देशों की सफलता के लिए एक आम स्तर है और इस घोषणा-पत्र को ध्यान में रखते हुए ही हमें व्यक्तिगत स्वार्थों को हटाकर सभी सदस्य देशों के लोगों और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्यों के लोगों में शिक्षा तथा साक्षरता, इन अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सम्मान और प्रगतिवादी योजनाओं द्वारा क्रियान्वयन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति, वैश्विक और प्रभावशाली पहचान और ध्यान के लिए संघर्ष करना है" (Resolution 217 A (III), 10 December 1948) |

मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा-पत्र यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx> पर 500 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। विश्वस्तरीय रीडिंग्स में शामिल होने के लिए [worldwidereading@literaturfestival.com](mailto:worldwidereading@literaturfestival.com) पर ईमेल द्वारा सूचित करें। बर्लिन लिटरेरी फेस्टिवल अपने फेस्टिवल की वेबसाइट ([www.literaturfestival.com](http://www.literaturfestival.com)), और सोशल मीडिया पर अधिक जानकारी पोस्ट करेगा।